

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल 2013—चैत्र 29, शक 1935

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

कटनी, दिनांक 13 जनवरी 2013

क्र. 38-2013-जि.यो.सा.-जनगणना-2011-एन.पी.आर.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है :—

### अनुसूची

क्रम संख्या	प्रशासनिक इकाई	पदनाम	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नगरपालिक निगम, कटनी, जोन क्र. 01 से 03 तक.	उपायुक्त, नगरपालिक निगम, कटनी.	उप जिला रजिस्ट्रार, कटनी, नगरपालिक निगम.	नगरपालिक निगम, कटनी के जोन क्रमांक 01 से 03 के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
2	तहसील कटनी	तहसीलदार, कटनी	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील कटनी.	तहसील कटनी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र छोड़कर).
3	तहसील रीठी	तहसीलदार, रीठी	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील रीठी.	तहसील रीठी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	तहसील बरही	तहसीलदार, बरही	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील बरही.	तहसील बरही के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.
5	तहसील बड़वारा	तहसीलदार, बड़वारा	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील बड़वारा.	तहसील बड़वारा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.
6	तहसील विजयराघवगढ़	तहसीलदार, विजयराघवगढ़.	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील विजयराघवगढ़.	तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
7	तहसील बहोरीबंद	तहसीलदार, बहोरीबंद	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील बहोरीबंद.	तहसील बहोरीबंद के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.
8	तहसील ढीमरखेड़ा	तहसीलदार, ढीमरखेड़ा	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील ढीमरखेड़ा.	तहसील ढीमरखेड़ा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.
9	नगर परिषद् बरही	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बरही.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर परिषद् बरही.	नगर परिषद् बरही के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.
10	नगर परिषद् कैमोर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, कैमोर.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर परिषद् कैमोर.	नगर परिषद् कैमोर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.
11	नगर परिषद् विजयराघवगढ़.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, विजयराघवगढ़.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर परिषद् विजयराघवगढ़.	नगर परिषद् विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.
12	आयुध निर्माणी, कटनी.	कार्य प्रबंधक / प्रशासन आयुध निर्माणी, कटनी.	उप जिला रजिस्ट्रार, आयुध निर्माणी, कटनी.	आयुध निर्माणी, कटनी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
13	सम्बन्धित ग्राम	संबंधित पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	सम्बन्धित गांव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
14	सम्बन्धित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	सांविधिक नगरों (नगर निगम/नगरपालिका/छावनी बोर्ड/नगर परिषद्) के अन्तर्गत संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान : कटनी

दिनांक : 11 जनवरी 2013

ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).

Katni, the 13th January 2013

No. 38-2013-D.P.&S.-Cencus-2011-N.P.R.—In exercise of the powers conferred *vide* GAD Order No. F. 10-1-2012-2-A(3), dated 16th February 2012 published in Madhya Pradesh Gazette, dated 17th February 2012 & under rules 5, 16 & 18 of the Citizenship Act, 1955 and Citizenship (Registration of the Citizens and issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the following officers are appointed as the Registers for preparation of National Population Register with NPR designations mentioned in Col. (4) it take or aid in or supervise the NPR operation within the Administrative area specified against each of them in Col. No. (5) of Schedule:—

## SCHEDULE

Sl. No. (1)	Administrative Unit (2)	Designation (3)	To be appointed as (4)	Jurisdiction (5)
1	Katni Municipal Corporation, Zone 1 to 3.	Deputy Commissioner, Municipal Corporation, Katni.	Sub-District Registrar, Katni Municipal Corporation.	Entire Municipal urban area in respective zone of 1 to 3 Municipal Corporation.
2	Tahsil Katni	Tahsildar, Katni	Sub-District Registrar, Tahsil Katni.	Entire Tahsil Katni (excluding urban areas).
3	Tahsil Rithi	Tahsildar, Rithi	Sub-District Registrar, Tahsil Rithi.	Entire Tahsil Rithi (excluding urban areas).
4	Tahsil Barhi	Tahsildar, Barhi	Sub-District Registrar, Tahsil Barhi.	Entire Tahsil Barhi (excluding urban areas).
5	Tahsil Badwara	Tahsildar, Badwara	Sub-District Registrar, Tahsil Badwara.	Entire Tahsil Badwara (excluding urban areas).
6	Tahsil Vijayraghavgarh.	Tahsildar, Vijayraghavgarh.	Sub-District Registrar, Tahsil Vijayraghavgarh.	Entire Tahsil Vijayraghavgarh (excluding urban areas).
7	Tahsil Bahoriband.	Tahsildar, Bahoriband.	Sub-District Registrar, Tahsil Bahoriband.	Entire Tahsil Bahoriband (excluding urban areas).
8	Tahsil Dhimarkheda.	Tahsildar, Dhimarkheda.	Sub-District Registrar, Tahsil Dhimarkheda.	Entire Tahsil Dhimarkheda (excluding urban areas).
9	Municipal Council, Barhi	Chief Municipal Officer, Barhi.	Sub-District Registrar, Municipality Council, Barhi.	Entire urban area of Municipality Council, Barhi.
10	Municipal Council, Kaimor.	Chief Municipal Officer, Kaimor.	Sub-District Registrar, Municipality Council, Kaimor.	Entire urban area of Municipality Council, Kaimor.
11	Municipal Council, Vijayraghavgarh.	Chief Municipal Officer, Vijayraghavgarh.	Sub-District Registrar, Municipality Council, Vijayraghavgarh.	Entire urban area of Municipality Council, Vijayraghavgarh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Ordinance Factory, Katni.	Works Manager, Administration Ordinance Factory, Katni.	Sub-District Registrar, Ordinance Factory, Katni.	Entire urban area of Ordinance Factory, Katni.
13	Respective Village(s).	Concerned Patwari	Local Registrar	Entire area of respective village, census Town/Out growth.
14	Respective Ward(s).	Revenue Inspector/Health Inspector/Sanitary Inspector/Asstt. Revenue Inspector/Tax Collector.	Local Registrar	Entire urban area in respective wards of Statutory Towns (Municipal Corporation/Municipal Council/Cantonment Board/Nagar Panchayat).

The Sub-Districts, to appoint local Registrars at their level as per Govt. order No. F 10-1-2012-2-A(3), dated 16th February 2012.

Place : Katni

Date : 11th January 2013

A. K. SINGH, Collector & Registrar (NPR).

## कार्यालय, कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी, दतिया, मध्यप्रदेश

दतिया, दिनांक 23 मार्च 2013

क्र. 743-2013-जियोसांका-जन-2011-डी.सी.ओ.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3) दिनांक 16 फरवरी 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र) दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और “राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य” का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है :-

### अनुसूची

क्रम संख्या	प्रशासनिक इकाई	पदनाम	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	तहसील दतिया	तहसीलदार, दतिया	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील दतिया.	तहसील दतिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
2	तहसील सेवदा	तहसीलदार, सेवदा	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सेवदा.	तहसील सेवदा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
3	तहसील भाण्डेर	तहसीलदार, भाण्डेर	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील भाण्डेर.	तहसील भाण्डेर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	तहसील इन्दरगढ़	तहसीलदार, इन्दरगढ़	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील इन्दरगढ़.	तहसील इन्दरगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
5	नगरपालिका, दतिया	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, दतिया.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका, दतिया.	नगरपालिका दतिया के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
6	नगर पंचायत, सेवढ़ा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सेवढ़ा.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, सेवढ़ा.	नगर पंचायत सेवढ़ा के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
7	नगर पंचायत, भाण्डेर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, भाण्डेर.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, भाण्डेर.	नगर पंचायत भाण्डेर के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
8	नगर पंचायत, इन्दरगढ़	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, इन्दरगढ़.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, इन्दरगढ़.	नगर पंचायत इन्दरगढ़ के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
9	नगर पंचायत, बडौनी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बडौनी.	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पंचायत, बडौनी.	नगर पंचायत बडौनी के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
10	सम्बन्धित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
11	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	सांविधिक नगरों (नगर निगम/नगरपालिका/ छावनी बोर्ड / नगर परिषद्) के अन्तर्गत संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

स्थान : दतिया

दिनांक : 22 मार्च 2013

संकेत भोंडवे, जिलाध्यक्ष एवं उपसचिव /  
अति. सचिव एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).